

娜莫 悉底哩野 地尾迦南 薩婆 怛他藥多南 唵 部尾 婆嚩娜 嚩嚩 嚩者嚩
 नमो स्रि द्रिकानाम सर्वा तथगतानाम ओं भुविर् भवना वारी वाचारी
 namaḥ stryā dhvikānām sarva tathāgatānām om bhuvir bhavana vāri vācāri

女聲

ya-

中聲

na.mah si.ti.ri. dhi.vi.ka.na- ṃ tan tha- ta-na- ṃ o ṃ bo.vir na riḥ ca.riḥ

男聲

a sa.vah ga. a a bha.vah va. va.

歸禮 三世 諸 如來 啟請三身 法水反復持誦

者者齶 祖魯 祖魯 馱囉 馱囉 薩嚩 怛他藥多 馱都 馱嚩 鉢跢唎 婆嚩底
 च्चचच लु लु धरा धरा सर्वा तथगताः धातु धारी पद्मम् भवति
 caccaṭe culu culu dhara dhara sarva tathāgataḥ dhātau dhari padmaṃ bhavāti

女聲

te

中聲

ca.ca. co.lau colau tan tha- taḥ tau↑ riḥ paḥ ma- ṃ ti↑

男聲

dha.raḥ dha.raḥ sa.vah ga. dha. dha. da. a bha.vah
 緊密熏習 易流暢 執持 憶持 諸 如來 法界 軸承 聚集蓮花 化生

惹也 嚩犁 畝祖犁 薩麼囉 怛他藥多 達摩 斫迦囉 鉢囉唎嚩哆娜 嚩日隸
 रय वार मुकुल मार तथगतः धर्म चक्र प्रवर्तना वज्र
 jaya vāre mucūle smara tathāgataḥ dharma cakra pravṛttana vajre

女聲

na

中聲

ya re mu.co.le ma. tan tha- taḥ ma. ca.ka. pa. ri.ta. ji.reḥ

男聲

jai va. sa. rah ga. dha. rah rah va. vah

最殊勝尊貴 解脫 憶執 如來 聖法 輪 常轉 金剛

冒地 滿拏 楞迦囉 楞訖哩諦 薩嚩 怛他藥多 地瑟恥諦 冒馱野 冒馱野
 बति मण्डा लंकारा लंकरे सर्वा तथगतं धिष्ठिते बोधया बोधया
 bodhi maṇḍā laṅkāra laṅkṛte sarva tathāgatā dhiṣṭhite bodhāya bodhāya

女聲

te

中聲

bo dhi maṇ ṅ ka. ṅ ki.ri.teḥ tan tha- ta- di.ṣi.thi. bo. iya↑ bo. iya↑

男聲

ḍa- la-a ra- la-a sa. vah ga. dha- dha-

覺 滲入深心 裝飾 成莊嚴 一切 如來 住持 賜覺悟 住覺地

冒地 冒地 沒鞞 沒鞞 參冒馱顛 參冒馱野 者攞 者攞 者懶觀
 बति बति बुद्धया बुद्धया संबोधनी संबोधया चाला चाला चालतु
 bodhi bodhi buddheya buddheya sambodhani sambodhāyaḥ calā cala calantu

女聲

ya

ya

中聲

bo dhi bo dhi bu.dhei bu.dhei ṃ bo. ni ṃ bo. iya↑ ca. ca. ca. ntu.

男聲

sa dha. sa dha laḥ la. la-a

法覺悟 理覺悟 得超覺 成聖覺者 賜予覺醒 遍知覺 即行動修不動 求住足地

薩嚩 嚩囉拏儂 薩嚩 播波 尾蘂諦 戶嚕 戶嚕 薩嚩 戍迦 弭槃帝 薩嚩 怛他蘂多
 सार्व वारानि सार्व पाप विगत हुरु हुरु सार्व शोक विगत सार्व तथगतः
 sarvā varaṇāni sarva pāpaḥ vigate huru huru sarva śoka vigate sarva tathāgataḥ
 女聲 ni.

中聲 na. pa-paḥ vi. teh ho.ro ho.ro śo.ka. viḥ teh tan tha- taḥ

男聲 sa. va- va.ra. sa.vaḥ ga. sa.vaḥ ga. sa.vaḥ ga.
 諸稠林煩惱 一切 苦難 皆消失 調伏降服 一切 熱惱 皆消失 一切 如來

紇哩那野 嚩日哩拏 參婆囉 參婆囉 薩嚩 怛他蘂多 麁呬野 馱囉拏 畝涅犁
 हरिदय वज्र नी संभरि संभरि सार्व तथगतः गुह्य धारणि मुद्रि
 hr̥daya vajri nī saṃbhara saṃbhara sarva tathāgataḥ guhya dhāraṇi mudri
 女聲 ya

中聲 ki.ri. ya ji.ri. nī↑ ṃ ṃ tan tha- taḥ gu.hi- ni. mu.di.riḥ

男聲 dai vaḥ sa bha.raḥ sa bha.raḥ sa.vaḥ ga. dha-ra.
 心 導入金剛地 聚諸資糧 聚諸善行 一切 如來 祕密 陀羅尼 印

沒悌 蘇沒悌 薩嚩 怛他蘂多 地瑟恥多 馱觀 槃陞 娑嚩訶
 बुद्ध सुबुद्ध सार्व तथगता धिश्चिता धातु गर्भे स्वहा
 buddhe subuddhe sarva tathāgatā dhiṣṭhita dhātū garbhe svāhā
 女聲 ta ha-

中聲 bu.dheḥ so bu.dheḥ tan tha- ta- dhi.ṣi.thi. tū bhe so vā

男聲 sa.vaḥ ga. dha- ga.
 求證覺 成聖覺 一切 如來 加持 以法身 舍利 是所祈求

參摩耶 地瑟恥帝 娑嚩訶 薩嚩 怛他蘂多 紇哩那野 馱觀 畝捺嚩 娑嚩訶
 समय धिश्चिते स्वहा सार्व तथगतः हरिदय धातु मुद्रि स्वहा
 samaya dhiṣṭhite svāhā sarva tathāgataḥ hr̥daya dhātu mudri svāhā
 女聲 ya te ha- ha-

中聲 m mai dhi.ṣi.thi. so vā tan tha- taḥ ki.ri. ya tuḥ mu.di.riḥ so vā

男聲 sa sa.vaḥ ga. dai dha-
 任何時 皆加持 是所祈求 次成一切 如來 心 法界性 印 是所祈求

蘇鉢囉底瑟恥多 翠觀閉 怛他蘂多 地瑟恥帝 戶嚕 戶嚕 咩 咩 薩嚩訶
 सुप्रतिश्चिता स्तूपे तथगत धिश्चिते हुरु हुरु ह्य ह्य स्वहा
 supratīṣṭhita stūpe tathāgatā dhiṣṭhite huru huru hūṃ hūṃ svāhā
 女聲 teh ha-

中聲 so pa. ti.ṣi.thi.taḥ tu.peḥ tan tha- taḥ dhi.ṣi.thi. ho.ro ho.ro hau ṃ hau ṃ so vā

男聲 raḥ su. ga. a a
 善承擔安住 舍利塔處 如來 加持 調伏 降服 咩字成就 是所祈求

唵	薩嚩	怛他鞞多	塢瑟拏沙	馱都	畝捺囉尼	薩嚩	怛他鞞單	娑馱都
ॐ	सर्व	तथागतः	उषिषा	धतु	मुद्रानि	सर्व	तथागतम्	सद्धतु
om	sarva	tathāgataḥ	uṣṇīṣa	dhātu	mudrāṇī	sarva	tathāgataṃ	saddhātuḥ

女聲

中聲	o m	tan tha- taḥ	u.ṣi.nī.	tau	mu.	ṇī	tan tha- taṃ	tuh
----	-----	--------------	----------	-----	-----	----	--------------	-----

男聲	a	sa.vaḥ	ga.	ṣaḥ	dha-	da.raḥ	sa.vaḥ	ga.	sa.dha-
----	---	--------	-----	-----	------	--------	--------	-----	---------

啟請三身	諸如來	佛頂	法性身	印 導人	一切如來所聚	正法界性
------	-----	----	-----	------	--------	------

尾部使多	地瑟恥帝	咩	咩	娑嚩訶
विभुषिता	धिष्ठिते	हूम्	हूम्	स्वाहा
vibhūṣitā	dhiṣṭhite	hūṃ	hūṃ	svāhā

女聲

teḥ	ha-
-----	-----

中聲	vi.	ṣi.ta-	di.ṣi.thi.	hau ṃ	hau ṃ	so vā
----	-----	--------	------------	-------	-------	-------

男聲	bhu.	a	a
----	------	---	---

嚴飾(我)	加持(我)	咩字成就	是所祈求
-------	-------	------	------